ANSWER KEY ATTACHED IN LAST PAGE

Booklet Series **C**

Code: TG-02

संस्कृत

SANSKRIT

Time : 2 Hours

IMPORTANT INSTRUCTIONS

संस्कृत

1 कौस्तुभमणि को कौन धारण करता है?

(A) ब्रह्मा

(B) विष्णु

(C) शिव

(D) इन्द्र

2 पितृतुल्य शब्द में कौन समास है?

(A) अव्ययीभाव

(B) तत्पुरूष

(C) बहुव्रीहि

(D) व्दन्व्द

3 नीतिशतकम् के अनुसार धन की कितने दशायें होती हैं?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

4 ''वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः'' यह उक्ति किस ग्रन्थ में किसने कही है?

(A) शिवराजविजय में, सेनापति ने

(B) किरातार्जुनीयम्, वनेचरने

(C) किरातार्जुनीयम्, युधिष्ठिर ने

(D) शिवराजविजयः, शिवाजी ने

5 निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है?

(A) अन्तर्रराष्ट्रिय

(B)अन्तारराष्ट्रिय

(C) अन्ताराष्ट्रिय

(D) अन्तर्राष्ट्रीय

6 ग्रीष्म + ऋतुः मे सन्धि होने पर क्या शब्द बनता है?

(A) ग्रीष्मृतु :

(B) ग्रीष्मरतु :

(C) ग्रीष्मर्तु :

(D) उपर्युक्त मे कोई नही

7 "यथामति" शब्द में कौन समास है?

(A) अव्ययीभाव

(B) तत्पुरूष

(C) बहुव्रीहि

(D) व्दन्व्द

8 कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन विभक्ति होगी?

(A) प्रथमा

(B) व्दितीया

(C) सम्बोधन

(D) तृतीया

9 ''बलि याचते वसुधाम्'' इस वाक्य मे बलि मे व्दितीया विभक्ति क्यों होती है?

(A) बलि गौड कर्म है।

(B) उपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है।

(C) 'अकथितंच' सूत्र से कर्म संज्ञा होती है

(D) उपर्युक्त सभी कारणो से

10 पठ धातु का लङ् लकार के मध्यमपुरूष एक वचन का क्या रूप होता है?

(A) अपठन्

(B) अपठत

(C) अपठः

(D) अपठम्

11 निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है?

(A) मञ्चे

(B) अधिमञ्चम्

(C) मञ्चे अधि

(D)मञ्चस्य उपरि

12 भागीरथी उत्तररामचरितम् में किस की पूजा करने के बहाने सीता को लाती है?

(A) शिव

(B) विष्णु

(C) ब्रह्मा

(D) सूर्य

13 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है?

(A) रामेण भार्या त्यज्यते।

(B) रामेण भार्या त्यजति।

(C) रामः भार्या त्यजति।

(D) रामेण भार्या त्याजयति।

14 शिवराज विजयः के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

15 मेघदूतम् में प्रयुक्त छन्द के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं?

(A) 14

(B) 15

(C) 16

(D) 17

16 क्रिया से कौन उक्त होते हैं?

(A) कर्त्ता

(B) कर्म

(C) भाव

(D) उपर्युक्त सभी

17 शुकनास के उपदेश के पश्चात् प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया?

(A) राज दरबार में

(B) उद्यान में

(C) अपने भवन में

(D) वन में

18 गद्यकाव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

19 सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है?

(A) सुख्या

(B) सुखिना

(C) सुख्यः

(D) सुख्युः

20 बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है?

(A) वैदर्भी

(B) गौडी

(C) पाञ्चाली

(D) उपर्युक्त में कोई नहीं

21 नायक कितने प्रकार के होते हैं?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

22 यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी?

(A) 1 वर्ष

(B) 2 वर्ष

(C) 3 वर्ष

(D) 4 वर्ष

23 अस्मद् शब्द का पञ्चमी एक वचन में क्या रूप होता है?

(A) माम्

(B) मत्

(C) मम

(D) अस्मत्

24 मा ब्रूहि दीनं वचः' यह उक्ति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है?

(A) उत्तररामचरितम

(B) अभिज्ञानशाकुन्तलम्

(C) किरातार्जुनियम्

(D) नीतिशतकम्

25 कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है?

(A) आख्यायिका

(B) कथा

(C) रूपक

(D) उपन्यास

26 निम्नलिखित में सही शब्द क्या है?

(A) उपरोक्त

(B) उपर्युक्त

(C) उपरिउक्त

(D) उपरूक्त

27 श्रव्यकाव्य के कितने भेद होते हैं?

(A) 1

(B) 3

(C) 5

(D) 6

28 दिव् धातु का लोट् लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है?

(A) दीव्यतम्

(B) दीव्यतात

(C) दीव्यताम्

(D) दीव्यत

29 उत्तररामचरितम् में लवकुश की जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है?

(A) आठवीं

(B) दसवीं

(C) बारहवीं

(D) चौदहवीं

30 अच् प्रत्ययाहार में कितने स्वर होते हैं?

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

31 साधु + इति में सन्धि होने पर बनता है-

(A) साधोइति

(B) साधिति

(C) साधूति

(D) साधुरिति

32 बाणस्तु पञ्चाननः, यह उक्ति किसकी है?

(A) भामह

(B) राजशेखर

(C) क्षेमेन्द्र

(D) श्री चन्द्रदेव

33 किरातार्जुनीयम् का प्रधान रस क्या है?

(A) शृङ्गार रस

(B) करूण रस

(C) वीर रस

(D) शान्त रस

34 कादम्बरी के प्रथम मङ्गलाचरण में किसकी वन्दना की गयी है?

(A) ब्रह्मा

(B) विष्णु

(C) महेश

(D) त्रिगुणमयपरब्रह्म

35 जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है?

(A) तृतीया

(B) चतुर्थी

(C) पञ्चमी

(D) षष्ठी

36 नीतिशतकम् में राजनीति को कितने स्वरुपों को धारण करने वाली कहा गया है?

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 11

37 अभिज्ञानशाकुन्तलम् के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है?

(A) 20

(B) 21

(C) 22

(D) 23

38 प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम् में कितने पद्य हैं?

(A) 115

(B) 120

(C) 121

(D) 125

39 हल प्रत्ययाहार में कितने वर्ण होते हैं?

(A) 33

(B) 34

(C) 35

(D) 36

40 गुरू + आदेश : में सन्धि होने पर बनता है?

(A) गुरूदेश :

(B) गुरादेश :

(C) गुर्वादेश :

(D) गुरोदेश :

41 पुल्लिङ्ग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है?

(A) सर्वाः

(B) सर्वे

(C) सर्वौ

(D) सर्व

42 "विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा" यह उक्ति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है?

(A) उत्तररामचरितम्

(B) किरातार्जुनीयम्

(C) अभिज्ञानशाकुन्तलम्

(D) नीतिशतकम्

43 चुर् धातु के सम्बन्ध में क्या सही कथन है?

(A) चुर् धातु में णिच् प्रत्यय नहीं लगता है।

(B) चुर् धातु से स्वार्थ में णिच् होता है।

(C) चुर् धातु में णिच् प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है।

(D) चुर धातु केवल आत्मनेपदी धातु है।

44 रूपक के कितने भेद होते हैं?

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 12

45 सत्यनिष्ठ शब्द में कौन समास है?

(A) अव्ययीभाव

(B) तत्पुरुष

(C) बहुव्रीहि

(D) द्वन्द्व

46 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है?

(A) हरिः वैकुण्ठम् उपवसति।

(B) हरिः वैकुण्ठम् अनुवसति।

(C) हरिः वैकुण्ठे वसति।

(D) उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं।

47 उत्तररामचरितम् में अदृश्यरूप में सीता किसके साथ पञ्चवटी में आती हैं?

(A) गोदावरी

(B) गंगा

(C) तमसा

(D) वासन्ती

48 भाववाच्य के लिये निम्नलिखित में क्या सही नहीं है?

(A) भाववाच्य तभी जब क्रिया अकर्मक हो

(B) कर्ता तृतीयान्त होता है

(C) क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है

(D) भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है

49 गद्यकाव्य के कितने भेद होते हैं?

(A) 2

(B) 6

(C) 4

(D) 5

50 किरातार्जुनीयम् की कथा महाभारत के किस पर्व से सम्बन्धित है?

(A) आदि पर्व

(B) अनुशासनपर्व

(C) वनपर्व

(D) भीष्मपर्व

51 रूपक के भेदक तत्त्व जिनके आधार पर उनमें अन्तर किया जाता है वे कितने हैं?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

52 मेघदूतम् में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है?

(A) नर्मदा नदी

(B) विदिशा

(C) उज्जयिनी

(D) अयोध्या

53 शुद्ध वाक्य बताइये?

(A) वर्षायां न गन्तव्यः

(B) वर्षायां न गन्तव्यम्

(C) वर्षायां न गमनीयम्

(D) वर्षासु न गन्तव्यम्

54 पराभवोऽप्युत्सव एवं मानिनाम यह वचन किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है?

(A) उत्तररामचरितम्

(B) नीतिशतकम्

(C) किरातार्जुनीयम्

(D) अभिज्ञानशाकुन्तलम्

55 निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है?

(A) भुपत्युः

(B) भूपतेः

(C) भूपत्ये

(D) भूपत्या

56 अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम् में बताया गया है?

(A) पूर्व

(B) उत्तर

(C) पश्चिम

(D) दक्षिण

57 मेघदूतम् में किस छन्द का प्रयोग किया गया है?

(A) उपजाति

(B) वंशस्थ

(C) मन्दाक्रान्ता

(D) भुजङ्गप्रयात

58 उत्तररामचरितम् के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है?

(A) वाल्मीकि आश्रम

(B) चित्रकूट

(C) अयोध्या

(D) पञ्चवटी

59 "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण" यह वचन किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है?

(A) उत्तररामचरितम्

(B)अभिज्ञानशाकुन्तलम्

(C) किरातार्जुनीयम्

(D) मेघदूतम्

60 उत्तररामचरितम् नाटक का मङ्ग लाचरण किस छन्द में है?

(A) गायत्री

(B) अनुष्टुप्

(C) उपजाति

(D) वंशस्थ

61 किरातार्जुनीयम् का नायक कौन है?

(A) युधिष्ठिर

(B) अर्जुन

(C) शिव (किरातवेशधारी)

(D) भीम

62 किरातार्जुनीयम् के प्रथम सर्ग के प्रायः प्रयुक्त छन्द में प्रयुक्त गण हैं?

(A) जगण तगण जगण रगण

(B) जगण तगण जगण दो गुरुवर्ण

(C) तगण तगण जगण गुरु गुरु

(D) तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु

63 क्रिया अकर्मक होती है जब.......(गलत विकल्प चुनिए;

(A) जब धातु का अर्थ बदल जाये।

(B) जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो।

(C) जब धातु का कर्म अत्यन्त प्रसिद्ध हो।

(D) जब कर्म शब्दों से लिखा न हो।

64 अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है?

(A) प्रथमे

(B) प्रथमेन

(C) प्रथमैः

(D) प्रथमौ

65 सन्धि निम्नलिखित में से किनमें अवश्य करनी चाहिये?

(A) एकपद में

(B) धातु तथा उपसर्ग के मध्य

(C) समास में

(D) उपर्युक्त सभी में

66 ध्यानावस्थितैर्भवाहशैर्न ज्ञायते कालवेगः यह उक्ति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है?

(A) उत्तररामचरितम्

(B) कादम्बरी

(C) शिवराजविजय

(D) किरातार्जुनीयम्

67 शीतोष्णम् शब्द में क्या समास है?

(A) अव्ययीभाव

(B) तत्पुरूष

(C) बहुव्रीहि

(D) व्दन्व्द

68 'वामाः कुलस्याधयः' यह उक्ति किस ग्रन्थ में वर्णित है?

(A) उत्तररामचरितम्

(B) अभिज्ञानशाकुन्तलम्

(C) नीतिशतकम्

(D) किरातार्जुनीयम

69 निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है?

(A) कुमार्यः

(B) कुमार्या

(C) कुमार्योः

(D) उपर्युक्त सभी

70 कर्ता व्दारा अनिप्सित पदार्थ को क्या संज्ञा होती है?

(A) कर्ता

(B) कर्म

(C) करण

(D) सम्प्रदान

71 जलमग्न, शब्द में कौन समास है?

(A) अव्ययीभाव

(B) तत्पुरूष

(C) व्दन्व्द

(D) बहुव्रीहि

72 जब कोई क्रिया कृदन्त रूप से प्रकट की जाती है, तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है?

(A) द्वितीया

(B) तृतीया

(C) षष्ठी

(D) सप्तमी

73 अष्टन् शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप होता है?

(A) अष्टः

(B) अष्टन्

(C) अष्टौ

(D) अष्टाः

74 नाट्य में कितने रस होते हैं?

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

75 नियमपूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है?

(A) तृतीया

(B) चतुर्थी

(C) पञ्चमी

(D) षष्ठी

76 सुख + ऋत मे सन्धि होने पर क्या शब्द बनता है?

(A) सुखार्त

(B) सुखर्त

(C) सुखरत

(D) सुखारत

77 कादम्बरी का उपजीव्य ग्रन्थ है?

(A) महाभारत

(B) अवन्तिसुन्दरी कथा

(C) वृहत्कथा

(D) वासवदत्ता

78 निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है?

(A) अक्षतः

(B) दाराः

(C) लाजः

(D) वर्षा

79 कुछ द्रुह् इर्ष्य धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है?

(A) करण

(B) सम्प्रदान

(C) अपादान

(D) अधिकरण

80 भू धातु का लोट लकार मध्यमपुरूष के बहु- वचन में क्या रूप होता है?

(A) भवत

(B) भव

(C) भवतम्

(D) भवतु

81 महाकवि भवभूति की कितनी रचनायें हैं?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

82 मेघदूतम् के प्रारम्भ में निम्न में से किस प्रकार का मङ्गलाचरण किया गया है?

(A) आशीर्वचनात्मक

(B) नमस्कारात्मक

(C) वस्तुनिर्देशात्मक

(D) उपर्युक्त सभी

83 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?

(A) शतस्त्रिय पठन्ति।

(B) शताः स्त्रीणां कियन्मूल्यम्।

(C) विंशतिः फलानि शन्ति।

(D) त्रिंशताः बालिका पठन्ति।

84 युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है?

(A) युवानः

(B) युवा

(C) युवानम्

(D) यूनः

85 राजाशूद्रक की राजधानी का क्या नाम था?

(A) उज्जयिनी

(B) विदिशा

(C) पाटलिपुत्र

(D) तक्षशिला

86 निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है?

(A) द्वितीया

(B) तृतीया

(C) चतुर्थी

(D) द्वितीया से सप्तमी तक सभी का

87 सुप् प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं?

(A) 20

(B) 21

(C) 22

(D) 24

88 अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है?

(A) प्रथमा का

(B) द्वितीया का

(C) तृतीय का

(D) सभी का

89 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है?

(A) रामः पठति

(B) रामेण पठ्यते

(C) रामःपाठ्यार्त

(D) सभी शुद्ध हैं।

90 पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है?

(A) विष्णु

(B) ब्रह्मा

(C) इन्द्र

(D) कामदेव

91 संस्कृत वाङ्मय में सर्व प्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रन्थ में हुआ है?

(A) ऋग्वेद

(B) यजुर्वेद

(C) कादम्बरी

(D) हर्षचरित

92 तिङ् प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं?

(A) 18

(B) 19

(C) 20

(D) 21

93 पण्डित अम्बिकादत्तव्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है?

(A) घाटिकाशतक

(B) साहित्याचार्य

(C) शतावधान

(D) मीमांसक

94 निम्न लौकिक प्रयोगों में कौन अशुद्ध है?

(A) सत्यमेव जयते

(B) धर्मः जयति सर्वदा

(C) न्यायो जयति सर्वत्र

(D) सत्यं जयति सर्वत्र

95 ''एको रस; करूण'' एव यह उक्ति उत्तररामचरितम के किस अंक से सम्बन्धित है?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

96 उत्तररामचरितम् में कितने अंक है?

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

97 कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है?

(A) प्रथमा

(B) व्दितीया

(C) तृतीया

(D) षष्ठी

98 सुश्री शब्द के पञ्चमी विभक्ति के एक वचन का क्या रूप होता है?

(A) सुश्री

(B) सुश्रिये

(C) सुश्रियः

(D) सुश्रियौ

99 निम्नलिखित में से युष्मद् शब्द के लिये क्या सही कथन है?

(A) मध्यमपुरूषवाची है।

(B) सम्बोधन शब्द के ठीक बाद प्रयोग वर्जित है।

(C) तीनो लिङ्गो में एक समान रूप होते है।

(D) उपर्युक्त सभी सही है।

100 'असज्जनात्कस्य भयं न जायते' यह वचन किस ग्रन्थ का है?

(A) नीतिशतकम्

(B) मेघदूतम्

(C) किरातार्जुनीयम्

(D) कादम्बरी

101 मेघदूतम् में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

102 कादम्बरी के प्रारम्भ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है?

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

103 अनुष्टुप् छन्द में कितने अक्षर होते है?

(A) 24

(B) 28

(C) 30

(D) 32

104 ब्रू धातु का विधिलिङ मध्यमपुरूष व्दिवचन का क्या रूप होता है?

(A) ब्रूयात्

(B) ब्रूयात

(C) ब्रूयाव

(D) ब्रूयातम्

105 सम्बोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अन्तर होता है?

(A) एक वचन

(B) व्दि वचन

(C) बहुवचन

(D) किसी में भी नहीं

106 कादम्बरी का प्रधान रस क्या है?

(A) वीर

(B) श्रृङ्गार

(C) करूण

(D) शान्त

107 शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया?

(A) गजनीदेश पर आक्रमण

(B) महमूद के वंशजो की हत्या

(C) दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या

(D) दिल्ली पर आक्रमण

108 भारतवर्ष में यवनराज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में किसने किया?

(A) महमूद गजनी

(B) कुतुबुद्दीन

(C) शहाबुद्दीन

(D) मुहम्मद गौरी

109 शकुन्तला के अनिष्ट निवारण के लिये महर्षि कण्व कहां गये थे?

(A) हिमालय

(B) सोमतीर्थ

(C) कुरुक्षेत्र

(D) प्रयाग

110 शम्भु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होता है?

(A) शम्भवाय

(B) शम्भवायै

(C) शम्भवे

(D) शम्भव्या

111 उत्तररामचरितम् मे निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं है?

(A) नायक

(B) विदूषक

(C) नायिका

(D) सूत्रधार

112 महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं?

(A) धीर-प्रशान्त

(B) धीर ललित

(C) धीरोद्धत

(D) धीरोदात्र

113 किरातार्जुनीयम् शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है?

(A) फ

(B) द

(C) ख

(D) छ

114 उत्तररामचरित का छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक क्या है?

(A) व्दितीय अंक

(B) तृतीय अंक

(C) चतुर्थ अंक

(D) पञ्चम अंक

115 किरातार्जुनीयम् प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है?

(A) व्दैतवन में निवास

(B) गुप्तचर व्दारा दुर्योधन का वृत्तान्त

(C) द्रौपदी का क्रोध

(D) द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर व्दारा समर्थन।

116 महर्षि कण्व किनके साथ शकुन्तला को पतिगृह भेजते हैं?

(A) शार्ङ्गरव

(B) शारद्वत

(C) गौतमी

(D) उपर्युक्त सभी

117 किरातार्जुनीयम् महाकाव्य में कितने सर्ग हैं?

(A) 14

(B) 16

(C) 18

(D) 20

118 अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित मे किसे सौंपा?

(A) गौर सिंह

(B) सेनापति

(C) माल्यश्रीक

(D) सचिव

119 अशुद्ध वाक्य बताइये?

(A) कति बालिकाः

(B) कति जनाः पठन्ति?

(C) कतयः मुनयः जपन्ति?

(D) कति फलानि सन्ति?

120 जो बात अन्य विभक्तियो से न कहने की इच्छा हो, उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है?

(A) व्दितीया

(B) तृतीया

(C) पञ्चमी

(D) षष्ठी

121 कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी?

(A) राम

(B) दुष्यन्त

(C) अर्जुन

(D) शिवाजी

122 उत्तररामचरितम् के मङ्गलाचरण में किसकी वन्दना की गयी है?

(A) शिव

(B) शक्ति

(C) विष्णु

(D) कवि तथा वाणी

123 आधार कितने प्रकार का होता है, जिसमे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

124 उत्तररामचरितम् के तृतीय अङ्क का प्रारम्भ किससे होता है?

(A) नान्दी

(B) आकाशभाषित

(C) सूत्रधार

(D) विष्कम्भक

125 बाणभट्ट किस सम्राट् के सभापण्डित थे?

(A) चन्द्रगुप्त

(B) समुद्रगुप्त

(C) हर्षवर्धन

(D) शाहजंहा

U P MADHYAMIK SIKSHA SEWA CHAYAN BOARC

AD TGT - 1 / 2013

DATE OF EXAM 08/02/2015 SUBJECT :- TG02 SANSKRIT

ANSWER KEY

SERIES A			SERIES B			SERIES C			SERIES D	
Q.No.	Answer		Q.No.	Answer		Q.No.	Answer		Q.No.	Answer
1	C		1	C		1	B		1	B
2	D		2	B		2	B		2	B
3	D		3	A		3	B		3	B
4	A		4	A		4	B		4	A
5	B		5	B		5	C		5	A
6	D		6	C		6	C		6	C
7	A		7	B		7	A		7	B
8	B		8	C		8	D		8	B
9	B		9	C		9	D		9	C
10	C		10	C		10	C		10	C
11	D		11	B		11	C		11	D
12	D		12	B		12	C		12	C
13	C		13	C		13	A		13	B
14	D		14	B		14	B		14	B
15	D		15	D		15	D		15	B
16	D		16	D		16	D		16	B
17	C		17	B		17	C		17	B
18	B		18	C		18	B		18	B
19	C		19	C		19	A		19	D
20	B		20	A		20	C		20	D
21	C		21	B		21	B		21	C
22	A		22	D		22	A		22	D
23	C		23	B		23	B		23	C
24	D		24	D		24	D		24	C
25	B		25	B		25	B		25	C
26	A		26	D		26	B		26	C
27	A		27	D		27	B		27	C
28	C		28	C		28	C		28	B
29	D		29	B		29	C		29	D
30	B		30	A		30	D		30	B
31	D		31	D		31	B		31	C
32	A		32	D		32	D		32	C
33	C		33	C		33	C		33	D
34	C		34	A		34	D		34	C
35	C		35	C		35	A		35	C
36	D		36	C		36	C		36	C
37	B		37	A		37	C		37	C
38	D		38	D		38	C		38	D
39	C		39	B		39	B		39	D
40	B		40	C		40	C		40	C
41	C		41	A		41	B		41	D
42	B		42	C		42	D		42	B
43	C		43	D		43	B		43	A
44	C		44	C		44	C		44	D
45	A		45	D		45	C		45	C
46	D		46	C		46	D		46	B
47	B		47	A		47	C		47	B
48	C		48	B		48	D		48	B
49	B		49	D		49	A		49	A
50	D		50	C		50	C		50	B

13/02/2015

U P MADHYAMIK SIKSHA SEWA CHAYAN BOARD

AD TGT - 1 / 2013

DATE OF EXAM 08/02/2015 SUBJECT :- TG02 SANSKRIT

ANSWER KEY

SERIES A		SERIES B		SERIES C		SERIES D	
Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer
51	B	51	B	51	A	51	D
52	D	52	A	52	D	52	C
53	C	53	D	53	D	53	A
54	D	54	B	54	C	54	C
55	A	55	B	55	B	55	B
56	C	56	C	56	B	56	B
57	A	57	B	57	C	57	C
58	C	58	B	58	D	58	A
59	A	59	C	59	D	59	B
60	D	60	B	60	B	60	D
61	B	61	B	61	B	61	B
62	C	62	C	62	A	62	D
63	B	63	D	63	D	63	B
64	D	64	C	64	C	64	C
65	B	65	C	65	D	65	C
66	B	66	C	66	C	66	A
67	C	67	D	67	D	67	B
68	B	68	D	68	B	68	B
69	B	69	C	69	D	69	D
70	B	70	D	70	B	70	C
71	D	71	C	71	B	71	A
72	B	72	D	72	C	72	R
73	B	73	D	73	C	73	C
74	C	74	C	74	B	74	A
75	B	75	B	75	C	75	D
76	B	76	A	76	A	76	C
77	D	77	B	77	C	77	A
78	D	78	D	78	B	78	D
79	D	79	A	79	B	79	D
80	D	80	A	80	A	80	C
81	C	81	C	81	A	81	A
82	C	82	D	82	C	82	D
83	B	83	D	83	C	83	C
84	D	84	B	84	A	84	C
85	B	85	B	85	B	85	D
86	B	86	A	86	D	86	A
87	B	87	C	87	B	87	D
88	C	88	D	88	A	88	D
89	C	89	D	89	D	89	A
90	B	90	C	90	D	90	D
91	D	91	D	91	B	91	D
92	D	92	D	92	A	92	C
93	B	93	B	93	D	93	D
94	D	94	B	94	A	94	B
95	C	95	C	95	C	95	B
96	B	96	C	96	B	96	C
97	D	97	D	97	A	97	B
98	C	98	C	98	C	98	D
99	A	99	C	99	D	99	A
100	B	100	B	100	D	100	D

13/02/2015

U P MADHYAMIK SIKSHA SEWA CHAYAN BOARD

AD TGT - 1 / 2013

DATE OF EXAM 08/02/2015 SUBJECT :- TG02 SANSKRIT

ANSWER KEY

SERIES A		SERIES B		SERIES C		SERIES D	
Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer
101	B	101	B	101	B	101	D
102	C	102	D	102	C	102	D
103	A	103	B	103	D	103	C
104	D	104	A	104	D	104	D
105	D	105	B	105	A	105	C
106	A	106	D	106	B	106	B
107	C	107	D	107	C	107	B
108	C	108	D	108	D	108	D
109	A	109	A	109	B	109	A
110	D	110	A	110	C	110	C
111	C	111	C	111	B	111	B
112	B	112	A	112	D	112	A
113	C	113	B	113	D	113	D
114	D	114	D	114	B	114	D
115	D	115	B	115	D	115	D
116	C	116	D	116	D	116	C
117	A	117	D	117	C	117	D
118	C	118	D	118	C	118	B
119	B	119	B	119	C	119	D
120	A	120	B	120	D	120	C
121	D	121	C	121	D	121	A
122	C	122	D	122	D	122	B
123	D	123	C	123	B	123	D
124	D	124	D	124	D	124	B
125	A	125	B	125	C	125	D

13/02/2015

लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी–अप्नी सीरीज के अनुसार ओ0एम0आर0 (उत्तर–पत्रक) का मिलानकर लें, यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो इस विज्ञप्ति के 07 दिवस के अन्दर चयन बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त कोई भी आपत्ति चयन बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा।

अध्यक्ष
13.02.2015